

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1981/फाल्गुन 9, 1902
No. 74] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1981/PHALGUNA 9, 1902

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ-संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग-संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1981

सांकांनि० 88(अ) .—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सांकांनि० सं० 566 (अ), तारीख 28 नवम्बर, 1975 को अधिकृत करते हुए,

(क) वनस्पति संरक्षण संगरोध तथा संशोधन निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा में एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थापित करती है । इस प्रयोगशाला को केन्द्रीय वनस्पति संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, राजेन्द्र नगर, हृदराबाद और वनस्पति संगरोध अथवा घुमीकरण केन्द्र मेबनी मुम्बई स्थित प्रयोगशालाएं इसकी शाखा प्रयोगशालाएं होंगी, और

(ख) वनस्पति, संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय में भारत के वनस्पति संरक्षण सलाहकार को प्रागामी आदेशों तक उनके कार्यों के अतिरिक्त उक्त केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला का कार्य करने के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 19-52/79-पी० पी० एस०]

के० एल० एन० राव, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1981

G.S.R. 88(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) and in supersession of the Notification of Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), No. G.S.R. 566(E), dated the 28th November, 1975, the Central Government hereby

- (a) establishes a Central Insecticides Laboratory in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad, Haryana with laboratories at Central Plant Protection Training Institute, Rajendranagar, Hyderabad and Plant Quarantine and Fumigation Station, Sewri, Bombay, as its branch laboratories ; and
- (b) appoints the Plant Protection Adviser to the Government of India, in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, as the Director, of the said Central Insecticides Laboratory, in addition to his own duties until further orders.

[No. 19-52/79-RPS]

K. L. N. RAO, Jt. Secy.